



गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009, क्रमांक 25 के अंतर्गत स्थापित केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

GURU GHASIDAS VISHWAVIDYALAYA, BILASPUR (C.G.)

(A Central University established by the Central University Act., 2009 NO.25 of 2009)

Web Site - www.ggu.ac.in, ph. No. 07752-260021, fax No. 07752-260148,154

क्रमांक...3.04/अका./पाठ्यक्रम/2019

बिलासपुर दिनांक...29 OCT 2019

प्रति,

विभागाध्यक्ष,
इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंजी.

गुरु घासीदास विश्वविद्यालय,
बिलासपुर (छ.ग.)

विषय:- अनुमोदित पाठ्यक्रम का प्रेषण बाबत ।

महोदय,

विद्यापरिषद (स्थायी समिति) की बैठक दिनांक 20-09-2019 के द्वारा विषय क्रमांक 05 में विभिन्न विभागों से प्राप्त अध्ययन मण्डल की अनुशंसित (06) पाठ्यक्रमों का अनुमोदन किया गया है । तदनुसार अनुमोदित पाठ्यक्रम सत्र 2018-19/2019-20 की एक प्रति अग्रिम कार्यवाही हेतु संलग्न कर प्रेषित है ।

सहायक कुलसचिव (अका.)

प्रतिलिपि:-

1. परीक्षा नियंत्रक, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर को सूचनार्थ प्रेषित ।
2. उप-सहायक कुलसचिव परीक्षा/गोपनीय विभाग की ओर पाठ्यक्रम की एक-एक छायाप्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
3. कार्यालय प्रति ।

सहायक कुलसचिव (अका.)



Department of Industrial & Production Engineering

School of Engineering & Technology

Guru Ghasidas Vishwavidyalaya (A Central University), Bilaspur (C.G.) 495009

Website: www.ggu.ac.in

Phone (O): 07752-260453

E-Mail: arpita1964@gmail.com

Mobile No.: 9685127370

Minutes of Meeting of Board of Studies

A meeting of board of studies (BOS) of the Department of Industrial & Production Engineering (IPE) held on 29.04.2019 at 04:00 PM at CAD Lab (Room No.-G-11) of New I.T. Building. The following members were present-


1. Mrs. Arpita Roy Choudhary (Chairman of B.O.S. for UG program and member for Ph.D. Program), Assistant Professor & H.O.D., Department of Industrial & Production Engineering, G.G.V., Bilaspur (C.G.),
2. Prof. G.K.Agrawal (External Member, HVC Nominee), Professor, Govt. Engineering College, Bilaspur (C.G.)
3. Prof. M.K. Singh (Chairman of B.O.S. for Ph. D. Program & Member for UG program), Professor, Department of Industrial & Production Engineering, G.G.V., Bilaspur (C.G.)
4. Mr. C. P. Dewangan (Member of B.O.S.), Associate Professor, Department of Industrial & Production Engineering, G.G.V., Bilaspur (C.G.)
5. Mrs. Disha Dewanagn (Member of B.O.S.), Assistant Professor, Department of Industrial & Production Engineering, G.G.V., Bilaspur (C.G.)


One industrial external member Mr. Dalbir Singh Rekhi, Associate Vice President, Jindal Steel & Power Ltd., Angul, (subject expert from industry), was unable to attend the meeting, but he has given his consent via mail is attached herewith. He accepted the syllabus of B. Tech III, IV semester and Pre Ph. D. course work program.


In the meeting, the AICTE syllabus and scheme as per Choice Based Credit System (CBCS) of B.Tech. (IPE) III, IV semester and Pre Ph.D course work is discussed in detail. All the suggestions of the members are incorporated and recommended for approval. The AICTE syllabus as per CBCS scheme of B. Tech. (IPE) III, IV Semester and Pre Ph. D. course work have been accepted by the B.O.S. (IPE).


The syllabi are recommended and attached herewith for necessary approval from the competent authority.


The B.O.S. meeting was concluded with vote of thanks.


29.04.19
Prof. G.K.Agrawal


29/4/19
Prof. M.K.Singh


29/04/19
Mrs. Arpita Roy Choudhary
(on leave)


29.4.19
Mr. C.P. Dewangan


29/04/19
Mrs. Disha Dewanagn



(Attached his Consent)
Mr. Dalbir Singh Rekhi

Head of Department
Industrial & Production Engg.
Institute of Technology
G.G.V.V. Koni, Bilaspur (C. G.)



School of Studies in Engineering and Technology
GURU GHASIDAS VISHWAVIDHALAYA

(A CENTRAL UNIVERSITY ESTABLISHED BY THE CENTRAL UNIVERSITY ORDINANCE 2009, NO: 3 OF 2009)

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL & PRODUCTION ENGINEERING

STUDY & EVALUATION SCHEME

W.E.F. SESSION 2019-2020

Year: B.Tech. II year

SEMESTER-III

S. No.	Course No.	SUBJECT	PERIODS			EVALUATION SCHEME			CREDITS
			L	T	P	INTERNAL ASSESSMENT	ESE	SUB-TOTAL	
1.	IP03TBS05	NUMERICAL METHODS	3	1	0	30	70	100	4
2.	IP03TES04	MATERIAL SCIENCE	3	0	0	30	70	100	3
3.	IP03TES05	ENGG THERMODYNAMIC	3	1	0	30	70	100	4
4.	IP03TPC01	STRENGTH OF MATERIAL	3	1	0	30	70	100	4
5.	IP03TPC02	THEORY OF MACHINES	3	1	0	30	70	100	4
6.	IP03TPC03	MANUFACTURING PROCESSES- I	3	0	0	30	70	100	3
Total								600	22
PRACTICALS									
1.	IP03PPC01	TOM LAB	0	0	2	30	20	50	1
2.	IP03PPC02	MATERIAL TESTING LAB	0	0	2	30	20	50	1
3	IP03PBS03	PROGRAMING IN C & METALAB	0	0	2	30	20	50	1
Total								750	25

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]